

मुख्यमंत्री धामी ने कथिा करपात्री महाराज वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

22 जून, 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सहिा धामी ने सचवालय से वरचुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शरी रघुनाथ कीर्ति परसिर में स्वामी करपात्री महाराज की स्मृति में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उदघाटन कथिा ।

प्रमुख बदि

- वरचुअल उदघाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को यह बड़ी सौगात दी है जो देववाणी संस्कृत के प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिा रही है । उन्होंने करपात्री महाराज के नाम से केंद्र बनाए जाने पर कहा कि इससे परसिर का महत्त्व बढ़ेगा ।
- वदिति है कि धर्मसम्राट स्वामी करपात्री भारत के एक संत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं राजनेता थे । इनका जन्म सन् 1907 ईस्वी में श्रावण मास, शुक्ल पक्ष द्वितीया को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के भटनी ग्राम में सनातनधर्मी सरयूपारीण ब्राह्मण रामनधिओझा एवं श्रीमती शविरानी जी के आँगन में हुआ ।
- बचपन में उनका नाम 'हरि नारायण' रखा गया । वे दशनामी परंपरा के संन्यासी थे । दीक्षा के उपरांत उनका नाम 'हरहिरानंद सरस्वती' था कतिु वे 'करपात्री' नाम से ही प्रसदिध थे, क्योंकि वे अपनी अंजुलािका उपयोग खाने के बरतन की तरह करते थे (कर = हाथ, पात्र = बरतन, करपात्री = हाथ ही बरतन हैं जसिके) ।
- उन्होने 'अखलि भारतीय राम राज्य परिषद' नामक राजनैतिक दल भी बनाया था । धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय वदिवत्ता को देखते हुए इन्हें 'धर्मसम्राट' की उपाधि प्रदान की गई ।
- स्वामी करपात्री महाराज ने 1940 में जबरन मुसलमान बनाए गए लोगों को फरि से हद्दि बनाया था । 1966 में करपात्री महाराज ने तत्कालीन सरकार के खलिाफ गौ संवर्धन को लेकर आंदोलन शुरू कथिा था ।
- 7 फरवरी, 1982 को केदारघाट वाराणसी में स्वच्छ से उनके पंच प्राण महाप्राण में वलिीन हो गए । उनके नरिदेशानुसार उनके नश्वर पार्थवि शरीर का केदारघाट स्थति शरी गंगा महारानी को पावन गोद में जल समाधि दी गई ।



